

an>

Title: h Need for issuance of No Objection Certificate from Neyveli Lignite

Corporation regarding transfer of lignite mines which were allotted to

them by Gujarat Government.

**श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) :** महोदया, जुलाई 2006 में गुजरात सरकार ने मैसर्स नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन (एनएलसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता ज्ञापन दक्षिणी गुजरात में लिग्नाइट आधारित 1500 मेगावाट की विद्युत परियोजना के बारे में था। गुजरात में बिजली उत्पादन के लिए कोयला पूर्वी राज्यों से आता है। यह कोयला बहुत महंगा पड़ता है और इस कारण बिजली का उत्पादन बहुत महंगा पड़ता है। जब गुजरात सरकार ने एनएलसी के साथ विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाने संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे तब यह सोचा था कि इससे उत्पादित होने वाली बिजली में गुजरात सरकार का हिस्सा अधिक से अधिक यानी 90 प्रतिशत तक रहेगा। चूंकि इस परियोजना में विद्युत उत्पादन के लिए लिग्नाइट भंडारों का प्रयोग गुजरात राज्य से ही किया जाता था, इसलिए गुजरात सरकार को यह भरोसा था कि वह राज्य में सस्ती दरों पर या कम दरों पर लोगों को बिजली उपलब्ध करा पाएगी। लेकिन इस बारे में गुजरात सरकार और भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के बीच कतिपय सैद्धांतिक मतभेद थे। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इस परियोजना में लिग्नाइट का प्रयोग गुजरात सरकार के लिग्नाइट भंडारों से होना था। गुजरात सरकार ने सोचा कि इस परियोजना को एनएलसी के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में चलाने के बजाय इसे राज्य सरकार के सरकारी उपक्रम जीआईपीसीएल के माध्यम से चलाया जाए। सरकारी परियोजना होने से लोगों को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने में सक्षम रहेंगे। इस परियोजना को जीआईपीसीएल के माध्यम से चलाने में एक कानूनी अड़चन यह है कि एनएलसी इस बारे में एक एनओसी जारी करे कि उसे जो लिग्नाइट के भंडार आवंटित किए गए हैं, उन्हें गुजरात की राज्य सरकार को अथवा उसके किसी सरकारी उपक्रम को अथवा जीआईपीसीएल को हस्तांतरित करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। इस संबंध में गुजरात सरकार द्वारा केंद्र सरकार के माध्यम से एनएलसी के साथ कई बार पत्राचार भी किया गया है। केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस दिशा में अखिलम्ब कार्रवाई करे तथा एनएलसी की ओर से आवश्यक एनओसी जारी करवा दे ताकि इस परियोजना के काम को आगे बढ़ाया जा सके।